

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अक्टूबर 2011— कार्तिक 6, शक 1933

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

कुछ नहीं